



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 2016/वैशाख 13, 1938

No. 1067]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 2016/VAISAKHA 13, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2016

**का.आ. 1625(अ).**—यतः, मै. आई.एफ.एफ.सी.ओ किसान एस.ई.जेड. लिमिटेड, जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में एक निजी संगठन है, ने आंध्र प्रदेश राज्य में ग्राम रेगडीचेलिका, रचरलापडु, चोवदुपुटेद, उचागुन्टापालम, उत्तरी अम्मलुरु, बोदुवारीपालम; मण्डल कोडावलुरु, दागाधरती, अल्लूर; जिला नेल्लोर में एक बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 880(अ) दिनांक 19 अप्रैल, 2010 एवं का.आ. 302(अ) दिनांक 29 जनवरी, 2013 द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 1023.20 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित एवं 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. आई.एफ.एफ.सी.ओ किसान एस.ई.जेड. लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 234.7 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके दिनांक 21 जनवरी, 2016 एवं 23 दिसंबर, 2015 के पत्र सं. 17925/इन्फ्रा/ए3/2015 तथा 10200/इन्फ्रा/ए3/2015 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापटनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 234.7 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बन्धित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में

234.7 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 768.27 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात:-

तालिका

क्रम संख्या	मण्डल : गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	उप- सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	(पट्टा भूमि ) कोडावलुरु : रचरलापडु	564	2 ए	4.755
2.		564	2 बी	0.677
3.	(इनाम भूमि) कोडावलुरु : रचरलापडु	762	एम 1	0.016
4.		762	एम 2	0.207
5.		762	एम 3	0.744
6.		762	एम 4	0.608
7.		762	एम 5	0.751
8.		762	एन 1	0.124
9.		762	एन 2	0.164
10.		762	एन 3	0.036
11.		762	एन 4	0.040
12.		762	एन 5	0.015
13.		762	एन 6	0.073
14.		762	एन 7	0.029
15.		762	एन 8	0.058
16.		762	एन 9	0.113
17.		762	एन 10	0.044
18.		762	एन 11	0.102
19.		762	एन 12	0.047
20.		762	एन 13	0.127
21.		762	एन 14	0.193
22.		762	एन 15	0.197
23.		762	एन 16	0.018
24.		762	एन 17	0.288
25.		762	एन 18	0.018
26.		762	एन 19	0.044
27.		762	एन 20	0.131
28.		762	एन 21	0.171
29.		762	एन 22	0.164
30.		762	एन 23	0.004
31.		762	एन 24	0.360

32.		762	एन 25	0.324
33.		762	एन 26	0.018
34.		762	एन 27	0.266
35.		762	एन 28	0.852
36.		762	एन 29	0.087
37.		762	एल 1	1.047
38.		762	एल 2	1.709
39.		762	एल 3	0.011
40.		762	एल 4	0.086
41.		762	एल 5	0.432
42.		762	एल 6	0.147
43.		762	एल 7	0.104
44.		762	एल 8	0.104
45.		762	एल 9	0.128
46.		762	एल 10	0.128
47.		762	एल 11	0.128
48.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	763	1	1.699
49.		763	2	0.485
50.		763	4	0.324
51.	(सरकारी भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	763	3	1.108
52.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	565	1	1.841
53.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	565	2	1.191
54.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	565	3	0.244
55.	(सरकारी भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	764		1.958
56.	(सरकारी भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	765		3.540
57.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	766	1	2.007
58.		766	2	1.011
59.		766	3	1.011
60.		767	1	0.647
61.		767	2	0.506
62.		767	3	1.011
63.		767	4	0.510
64.		767	5	0.514
65.		767	6	0.809
66.		768	1	2.338

67.	(सरकारी भूमि ) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	768	2	1.011
68.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	769	1	0.748
69.		769	3	0.485
70.		769	4	1.056
71.		769	5	1.044
72.		769	6	1.254
73.	(सरकारी भूमि ) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	769	2	0.352
74.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	770	2	1.108
75.		770	3	0.364
76.		770	4	0.461
77.		770	4	0.461
78.		770	6	0.465
79.		770	7	0.506
80.	(सरकारी भूमि ) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	770	1	0.251
81.		770	5	0.850
82.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	771	1	0.910
83.		771	2	0.655
84.	(इनाम भूमि) कोडावलुरु: रचरलापडु	762	1	0.712
85.		762	2	0.190
86.		762	3	0.874
87.		762	4	0.384
88.		762	5	0.044
89.		762	6	0.040
90.		762	7	0.040
91.		762	8	0.206
92.		762	9	0.024
93.	(सरकारी भूमि ) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	772	1	0.065
94.		772	7	0.099
95.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु : रेगडीचेलिका	772	2	0.322
96.		772	3	0.518
97.		772	4	0.259
98.		772	5	0.524
99.		772	6	0.253
100.		773	2	0.247
101.		773	4	0.251

102.		773	5	0.318
103.		773	6	0.249
104.		773	7	0.469
105.		773	8	0.247
106.		773	9	0.095
107.		774	1	0.202
108.		774	3	0.607
109.		775	1	0.607
110.		775	2	0.592
111.		776	1	0.081
112.		776	2	0.162
113.	(सरकारी भूमि) दागाधरती: चोवदुपुटेदु	171	1	0.710
114.		171	2	0.030
115.	(पट्टा भूमि) दागाधरती: उचागुन्टापालम	171	2	0.061
116.	(सरकारी भूमि) दागाधरती: चोवदुपुटेदु	172	2	0.040
117.		172	3	0.238
118.	(सरकारी भूमि) दागाधरती: उचागुन्टापालम	172	5	0.003
119.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु: रेगडीचेलिका	172	1	0.277
120.	(पट्टा भूमि) दागाधरती: उचागुन्टापालम	172	1/बी	0.134
121.		172	2/बी	0.108
122.		172	3/बी	0.092
123.	(इनाम भूमि) कोडावलुरु: रचरलापडु	564	1ए	9.345
124.		564	1बी	8.394
125.		564	1सी	11.287
126.		564	1 डी	17.873
127.		564	1 इ	19.944
128.		564	1 एफ	21.299
129.		762	सी	20.150
130.		762	डी	12.691
131.		762	इ	9.013
132.		762	एफ	3.246
133.	(निर्दिष्ट भूमि) कोडावलुरु: रेगडीचेलिका	565	1	0.182
134.		565	2	0.132
135.		565	3	0.027
136.	(पट्टा भूमि) कोडावलुरु: रचरलापडु	559		0.108

137.		560		0.947
138.		561		6.359
139.		562		0.806
140.		554		3.584
141.		555		0.874
142.	(इनाम भूमि) कोडावलुरु: रचरलापडु	762	जी 1	0.112
143.		762	जी 2	0.704
144.		762	जी 3	0.335
145.		762	जी 4	0.172
146.		762	जी 5	6.547
147.		762	जे 1	0.032
148.		762	जे 2	0.761
149.		762	जे 3	0.012
150.		762	जे 4	0.817
151.		762	जे 5	1.019
152.		762	जे 6	0.291
153.		762	जे 7	0.012
154.		762	जे 8	0.534
155.		762	जे 9	0.542
156.		762	जे 10	1.011
157.		762	जे 11	0.578
158.		762	जे 12	0.449
159.		762	जे 13	1.040
160.		762	जे 14	0.392
161.		762	जे 15	0.510
162.		762	के 1	0.558
163.		762	के 2	0.008
164.		762	के 3	0.004
165.		762	के 4	0.004
166.		762	के 5	0.251
167.		762	के 6	0.392
168.		762	के 7	0.829
169.		762	के 8	0.578
170.		762	के 9	0.461
171.		762	के 10	0.587

172.		762	के 11	0.162
173.		762	के 12	0.061
174.		762	के 13	0.781
175.		762	के 14	0.129
176.		762	के 15	0.150
177.		762	के 16	0.121
178.		762	एल 1	1.570
179.		762	एल 2	2.563
180.		762	एल 3	0.017
181.		762	एल 4	0.129
182.		762	एल 5	0.648
183.		762	एल 6	0.221
184.		762	एल 7	0.155
185.		762	एल 8	0.155
186.		762	एल 9	0.192
187.		762	एल 10	0.192
188.		762	एल 11	0.192
189.		762	एन 1	0.014
190.		762	एन 2	0.018
191.		762	एन 3	0.004
192.		762	एन 4	0.004
193.		762	एन 5	0.002
194.		762	एन 6	0.008
195.		762	एन 7	0.003
196.		762	एन 8	0.006
197.		762	एन 9	0.013
198.		762	एन 10	0.005
199.		762	एन 11	0.011
200.		762	एन 12	0.005
201.		762	एन 13	0.014
202.		762	एन 14	0.021
203.		762	एन 15	0.022
204.		762	एन 16	0.002
205.		762	एन 17	0.032
206.		762	एन 18	0.002

207.		762	एन 19	0.005
208.		762	एन 20	0.015
209.		762	एन 21	0.019
210.		762	एन 22	0.018
211.		762	एन 23	0.000
212.		762	एन 24	0.040
213.		762	एन 25	0.036
214.		762	एन 26	0.002
215.		762	एन 27	0.030
216.		762	एन 28	0.095
217.		762	एन 29	0.020
	कुल			<b>234.7</b>
	उपर्युक्त जोड़ के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			<b>768.27</b>

[फा. सं. एफ.1/181/2007-एसईजेड]  
डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2016

**S.O. 1625 (E).**—Whereas, M/s. IFFCO Kisan SEZ Limited, a private organization in the State of Andhra Pradesh, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Multi-Product Special Economic Zone at Villages, Regadichelika, Racharlapadu, Chowduputtetu, Uchaguntapalem, North Ammuluru, Bodduvaripalem; Mandals Kodavaluru, Dagadharthi, Allur, District Nellore in the State of Andhra Pradesh;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 1023.20 hectares area and de-notified the areas of 20.23 hectares from the above Special Economic Zone at above location as Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Numbers S.O. 880 (E), S.O. 302 (E) dated 19<sup>th</sup> April, 2011 and 29<sup>th</sup> January, 2013;

And, Whereas, M/s. IFFCO Kisan SEZ Limited has now proposed for de-notification of 234.7 hectares at the above Special Economic Zone;

And, Whereas, the State Government of Andhra Pradesh has given its “No Objection” to the proposal vide their letter Nos. 17925/INFRA/A3/2015, 10200/INFRA/A3/2015 dated 21<sup>st</sup> January, 2016 and 23<sup>rd</sup> December, 2015;

And, Whereas, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 234.7 hectares of the Special Economic Zone;

Now, Whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;



Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 234.7 hectares**, thereby making resultant area as **768.27 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of the Mandal : Village	Survey Numbers	Sub-Survey Numbers	Area to de-notified (in hectares)
1.	(PATTA LANDS)Kodavaluru: Racharlapadu	564	2A	4.755
2.		564	2B	0.677
3.	(INAM LANDS) Kodavaluru: Racharlapadu	762	M1	0.016
4.		762	M2	0.207
5.		762	M3	0.744
6.		762	M4	0.608
7.		762	M5	0.751
8.		762	N1	0.124
9.		762	N2	0.164
10.		762	N3	0.036
11.		762	N4	0.040
12.		762	N5	0.015
13.		762	N6	0.073
14.		762	N7	0.029
15.		762	N8	0.058
16.		762	N9	0.113
17.		762	N10	0.044
18.		762	N11	0.102
19.		762	N12	0.047
20.		762	N13	0.127
21.		762	N14	0.193
22.		762	N15	0.197
23.		762	N16	0.018
24.		762	N17	0.288
25.		762	N18	0.018
26.		762	N19	0.044
27.		762	N20	0.131
28.		762	N21	0.171
29.		762	N22	0.164
30.		762	N23	0.004
31.		762	N24	0.360
32.		762	N25	0.324
33.		762	N26	0.018
34.		762	N27	0.266

35.		762	N28	0.852
36.		762	N29	0.087
37.		762	L1	1.047
38.		762	L2	1.709
39.		762	L3	0.011
40.		762	L4	0.086
41.		762	L5	0.432
42.		762	L6	0.147
43.		762	L7	0.104
44.		762	L8	0.104
45.		762	L9	0.128
46.		762	L10	0.128
47.		762	L11	0.128
48.	(ASSIGNED LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	763	1	1.699
49.		763	2	0.485
50.		763	4	0.324
51.	(GOVERNMENT LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	763	3	1.108
52.	(ASSIGNED LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	565	1	1.841
53.		565	2	1.191
54.		565	3	0.244
55.	(GOVERNMENT LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	764		1.958
56.		765		3.540
57.	(ASSIGNED LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	766	1	2.007
58.		766	2	1.011
59.		766	3	1.011
60.		767	1	0.647
61.		767	2	0.506
62.		767	3	1.011
63.		767	4	0.510
64.		767	5	0.514
65.		767	6	0.809
66.		768	1	2.338
67.	(GOVERNMENT LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	768	2	1.011
68.	(ASSIGNED LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	769	1	0.748
69.		769	3	0.485
70.		769	4	1.056
71.		769	5	1.044
72.		769	6	1.254

73.	(GOVERNMENT LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	769	2	0.352
74.	(ASSIGNED LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	770	2	1.108
75.		770	3	0.364
76.		770	4	0.461
77.		770	4	0.461
78.		770	6	0.465
79.		770	7	0.506
80.	(GOVERNMENT LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	770	1	0.251
81.		770	5	0.850
82.	(ASSIGNED LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	771	1	0.910
83.	(GOVERNMENT LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	771	2	0.655
84.	(INAM LANDS) Kodavaluru: Racharlapadu	762	1	0.712
85.		762	2	0.190
86.		762	3	0.874
87.		762	4	0.384
88.		762	5	0.044
89.		762	6	0.040
90.		762	7	0.040
91.		762	8	0.206
92.		762	9	0.024
93.	(GOVERNMENT LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	772	1	0.065
94.		772	7	0.099
95.	(ASSIGNED LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	772	2	0.322
96.		772	3	0.518
97.		772	4	0.259
98.		772	5	0.524
99.		772	6	0.253
100.		773	2	0.247
101.		773	4	0.251
102.		773	5	0.318
103.	(ASSIGNED LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	773	6	0.249
104.		773	7	0.469
105.		773	8	0.247
106.		773	9	0.095
107.		774	1	0.202
108.		774	3	0.607
109.		775	1	0.607

110.		775	2	0.592
111.		776	1	0.081
112.		776	2	0.162
113.	(GOVERNMENT LANDS)Dagadharthi: Chowtaputtedu	171	1	0.710
114.		171	2	0.030
115.	(PATTA LANDS)Dagadharti: Uchaguntapalem	171	2	0.061
116.	(GOVERNMENT LANDS)Dagadharthi: Chowtaputtedu	172	2	0.040
117.	(GOVERNMENT LANDS)Dagadharthi: Chowtaputtedu	172	3	0.238
118.	(GOVERNMENT LANDS)Dagadharthi: Uchaguntapalem	172	5	0.003
119.	(ASSIGNED LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	172	1	0.277
120.	(PATTA LANDS)Dagadharti: Uchaguntapalem	172	1/B	0.134
121.		172	2/B	0.108
122.		172	3/B	0.092
123.	(INAM LANDS) Kodavaluru: Racharlapadu	564	1A	9.345
124.		564	1B	8.394
125.		564	1C	11.287
126.		564	1D	17.873
127.		564	1E	19.944
128.		564	1F	21.299
129.		762	C	20.150
130.		762	D	12.691
131.		762	E	9.013
132.		762	F	3.246
133.	(ASSIGNED LANDS) Kodavaluru: Regadichelika	565	1	0.182
134.		565	2	0.132
135.		565	3	0.027
136.	(PATTA LANDS)Kodavaluru: Racharlapadu	559		0.108
137.		560		0.947
138.		561		6.359
139.		562		0.806
140.		554		3.584
141.		555		0.874
142.	(INAM LANDS) Kodavaluru: Racharlapadu	762	G1	0.112
143.		762	G2	0.704
144.		762	G3	0.335
145.		762	G4	0.172
146.		762	G5	6.547
147.		762	J1	0.032

148.		762	J2	0.761
149.		762	J3	0.012
150.		762	J4	0.817
151.		762	J5	1.019
152.		762	J6	0.291
153.		762	J7	0.012
154.		762	J8	0.534
155.		762	J9	0.542
156.		762	J10	1.011
157.		762	J11	0.578
158.		762	J12	0.449
159.		762	J13	1.040
160.		762	J14	0.392
161.		762	J15	0.510
162.		762	K1	0.558
163.		762	K2	0.008
164.		762	K3	0.004
165.		762	K4	0.004
166.		762	K5	0.251
167.		762	K6	0.392
168.		762	K7	0.829
169.		762	K8	0.578
170.		762	K9	0.461
171.		762	K10	0.587
172.		762	K11	0.162
173.		762	K12	0.061
174.		762	K13	0.781
175.		762	K14	0.129
176.		762	K15	0.150
177.		762	K16	0.121
178.		762	L1	1.570
179.		762	L2	2.563
180.		762	L3	0.017
181.		762	L4	0.129
182.		762	L5	0.648
183.		762	L6	0.221
184.		762	L7	0.155
185.		762	L8	0.155
186.		762	L9	0.192
187.		762	L10	0.192
188.		762	L11	0.192
189.		762	N1	0.014

190.		762	N2	0.018
191.		762	N3	0.004
192.		762	N4	0.004
193.		762	N5	0.002
194.		762	N6	0.008
195.		762	N7	0.003
196.		762	N8	0.006
197.		762	N9	0.013
198.		762	N10	0.005
199.		762	N11	0.011
200.		762	N12	0.005
201.		762	N13	0.014
202.		762	N14	0.021
203.		762	N15	0.022
204.		762	N16	0.002
205.		762	N17	0.032
206.		762	N18	0.002
207.		762	N19	0.005
208.		762	N20	0.015
209.		762	N21	0.019
210.		762	N22	0.018
211.		762	N23	0.000
212.		762	N24	0.040
213.		762	N25	0.036
214.		762	N26	0.002
215.		762	N27	0.030
216.		762	N28	0.095
217.		762	N29	0.020
	<b>Total</b>			<b>234.7</b>
	<b>Total Area of SEZ after above deletion</b>			<b>768.27</b>

[F. No. F.1/181/2007-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.